

**रोलिंग विज्ञापन संख्या 09-06 /ROLLING ADVT. NO. 09-06**

**Website Ref: RollingAdvtSept2107**

1. **परियोजना शीर्षक :** 'एनपीएक्स-एक्सओपी-आइडेंटिफिकेशन एण्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉन-पैथोजेनिक जेथोमोनास एज को-इवोल्व्ड एण्ड को-एडोप्टिड फाइटोबैक्टीरिया'

**परियोजना कोड:** एमएलपी-0048

**पदनाम : प्रोजेक्ट एसोशिएट-II=02**

**अनिवार्य योग्यता:** प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री/ एमबीएससी अथवा इंजीनियरिंग अथवा टेक्नॉलोजी अथवा मेडिसिन में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष और

**(ii)** औद्योगिक एवं शैक्षिक संस्थानों अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठनों और वैज्ञानिक क्रियाकलापों एवं सेवाओं में चार वर्ष अनुसंधान व विकास का अनुभव

**अथवा**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/फार्मा में पीएचडी डिग्री/एमडी/एमएस

**वांछनीय :** नेक्स्ट जेनेरेशन सीक्वेंसिंग डेटा और थर्ड जेनेरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नॉलोजीस के उत्पादन एवं विश्लेषण में अनुभव चूंकि एससीआई जर्नल्स में प्रकाशन के निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी।

**अधिकतम आयु सीमा:** 40 वर्ष

**मासिक परिलब्धियाँ:** ₹ 42000/- + एचआरए

1. **Project titled:** "NPX-XOP- Identification and Investigation of Non-Pathogenic Xanthomonas as Co-evolved and co-adapted Phytobacteria."

**Project Code: MLP-0048**

**Position: Senior Project Associate = 02**

**Essential Qualification: (i)** (i) Master's Degree in Natural or Agricultural Sciences/ MVSc or bachelor's degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognized University or equivalent; and

**(ii)** Four years experience in Research and Development in Industrial and Academic Institutions or Science and Technology Organisations and Scientific activities and services.

**OR**

Doctoral Degree in Science/ Engineering/ Technology/ Pharma/ MD/ MS from a recognized University or equivalent

**Desirable:** Experience in the generation and analysis of next-generation sequencing data and third-generation sequencing technologies, as adjudged by publications in Science Citation Indexed (SCI) journals will be given preference.

**Upper Age limit (years) – 40**

**Monthly Emoluments: 42000/- +HRA**

**Controller of Administration**